



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 चैत्र 1947 (श10)

(सं० पटना 236) पटना, मंगलवार, 8 अप्रील 2025

सं०सं० 04तक0/निपट/23/2025-1189

उद्योग विभाग

संकल्प

20 मार्च 2025

विषय:— नेशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT), पटना का ऑडिटोरियम भवन सहित पूर्व प्राक्कलित रु० 58.65 करोड़ (अठावन करोड़ पैंसठ लाख रु०) मात्र को रु० 31.96 करोड़ बढ़ाकर पुनरीक्षित प्राक्कलन रु० 90,60,91,640.00 (रुपये नब्बें करोड़ साठ लाख इक्यानवे हजार छः सौ चालीस) मात्र की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में राशि रु० 01.00 करोड़ (रुपये एक करोड़) तथा अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 में शेष राशि रु० 30.96 करोड़ (रुपये तीस करोड़ छियानवे लाख) मात्र के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

1. नेशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT), मीठापुर फार्म्स, पटना के स्थायी कैम्पस में कार्यरत है, जहाँ छः पूर्णकालिक पाठ्यक्रम चलाये जाते हैं:—
  - i. बैचलर ऑफ फैशन डिजाईन
  - ii. बैचलर ऑफ टेक्सटाईल डिजाईन
  - iii. बैचलर ऑफ फैशन कम्प्यूनिकेशन
  - iv. बैचलर ऑफ फैशन एण्ड लाईफ स्टाईल एसेसरी डिजाईन
  - v. बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी
  - vi. मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेन्ट

इस तकनीकी संस्थान की स्थापना से उक्त सभी पाठ्यक्रम की पढ़ाई बिहार में हो रही है तथा इससे छात्र एवं छात्राओं को राज्य तथा देश के अन्य भागों में रोजगार प्राप्त हो रहे हैं। वर्ष 2008-09 में निपट, पटना के स्थापना के लिए परियोजना लागत की राशि रु० 58.65 करोड़ (अठावन करोड़ पैंसठ लाख रु०) मात्र की स्वीकृति दी गयी। उक्त राशि से ऑडिटोरियम सहित निपट के भवन का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है।

2. नेशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ फ़ैशन टेक्नोलॉजी (NIFT), पटना का ऑडिटोरियम भवन सहित पूर्व प्राक्कलित रु0 58.65 करोड़ (अठावन करोड़ पैंसठ लाख रु0) मात्र को रु0 31.96 करोड़ बढ़ाकर पुनरीक्षित प्राक्कलन रु0 90,60,91,640.00 (रुपये नब्बे करोड़ साठ लाख इक्यानवे हजार छः सौ चालीस) मात्र की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में राशि रु0 01.00 करोड़ (रुपये एक करोड़) तथा अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 में शेष राशि रु0 30.96 करोड़ (रुपये तीस करोड़ छियानवे लाख) मात्र के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।
3. उक्त निर्माण कार्य आयडा के माध्यम से कराया जाना है। निर्माण कार्य पूर्ण होने की संभावित अवधि 15 (पन्द्रह) माह है।
4. **बजट:**—मुख्यशीर्ष—2852—उद्योग, उपमुख्य शीर्ष—80—सामान्य, लघु शीर्ष—102—औद्योगिक उत्पादकता, उपशीर्ष—0110—औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, विषय शीर्ष— 3105—सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड—23—2852801020110।
5. इस पर दिनांक—19.03.2025 को मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या—33 के रूप में स्वीकृति दी गई है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
बन्दना प्रेयषी,  
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 236-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>